



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 9, 2012/माघ 20, 1933

No. 30]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 9, 2012/MAGHA 20, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2012

सं. 97 (आर ई-2010)/2009-2014

**विषय :** नए सिओन (ग-2048) का निर्धारण तथा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2 (2009-2014) में इंजीनियरिंग उत्पाद समूह (उत्पाद कोड 'ग') के 5 सिओन में परिवर्धन/विलोपन/संशोधन।

**फा. सं. 01/85/162/242/एम 11/डीईएस-VI.**—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-II (2009-2014) में यथाउल्लिखित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड में निम्नलिखित परिवर्धन/विलोपन करते हैं।

2. क्रम सं ग-2047 की मौजूदा प्रविष्टि के बाद क्रम सं. ग-2048 पर एक नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। नई प्रविष्टि निम्नानुसार होगी :-

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
सी-2048	1.60 मि.मी. व्यास के निकल सिल्वर वायर के बॉल पेन टिप्स	1.0 मिलियन नग (वजन 61.9 किग्रा. से कम नहीं)	1. संगत ग्रेड के 1.60 मि.मी. व्यास के निकल सिल्वर वायर 2. टंगस्टन कार्बाइड 3. काटने वाले औजार, ड्रिल तेल और रसायन	निर्यात उत्पाद में 1.90 किग्रा./किग्रा. अंश 1.01 मिलियन नग निर्यातों के पोत-पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2% तक

3. सिओन ग-864, ग-1802, ग-1888 और ग-1937 में मद संख्या 2 को समान रूप से 'टंगस्टन कार्बाइड बॉल्स' उल्लिखित किया गया है और छीजन जो कि पहले 2% निर्धारित की गई थी, को कम करके 1% कर दिया गया है। सभी मानदण्डों के मद्दे उपभोज्यों को मद संख्या 3 के रूप में अनुमत किया जा रहा है। इसके अनुसार संशोधित मानदण्ड निम्नलिखित रूप से होगा :-

निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
सी-864 ब्रास के बॉल पैन टिप्स	1.0 मिलियन नग (वजन 182 किग्रा. से कम नहीं)	1. ब्रास स्क्रेप 2. टंगस्टन कार्बाइड बॉल्स 3. काटने वाले औजार, ड्रिल तेल और रसायन	निर्यात उत्पाद में 1.075 किग्रा./किग्रा. अंश 1.01 मिलियन नग निर्यातों के पोत-पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2% तक

निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
ग-1802 2.3 मि.मी. व्यास की स्टेनलैस स्टील वायर की बाल टिप्स	1.0 मिलियन नग	1. संगत ग्रेड के 2.3 मि.मी. व्यास के स्टेनलैस स्टील वायर 2. टंगस्टन कार्बाइड बॉल्स 3. काटने वाले औजार, ड्रिल तेल और रसायन	निर्यात उत्पाद में 2.30 किग्रा./ किग्रा. अंश 1.01 मिलियन नग निर्यातों के पोत-पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2% तक

निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
ग-1888 2.3 मि.मी. व्यास के निकिल सिल्वर वायर के बाल पैन टिप्स	1.0 मिलियन नग (वजन 176.4 किग्रा. से कम नहीं)	1. संगत ग्रेड में 2.3 मि.मी. व्यास के निकिल सिल्वर वायर 2. टंगस्टन कार्बाइड बॉल्स 3. काटने वाले औजार, ड्रिल तेल और रसायन	निर्यात उत्पाद में 1.90 किग्रा./ किग्रा. अंश 1.01 मिलियन नग निर्यातों के पोत-पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2% तक

निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
ग-1937 ब्रास वायर की बॉल पैन टिप्स	1.0 मिलियन नग (वजन 190 किग्रा. से कम नहीं)	1. राउंड ब्रास वायर 2. टंगस्टन कार्बाइड बॉल्स 3. काटने वाले औजार, ड्रिल तेल और रसायन	निर्यात उत्पाद में 1.80 किग्रा./ किग्रा. अंश 1.01 मिलियन नग निर्यातों के पोत-पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2% तक

4. क्रम सं. ग-1768 पर सिओन को हटाया जाता है क्योंकि यह ग-864 का दोहराव है।

5. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :

- एक नए निर्यात उत्पाद '1.60 मि.मी. व्यास का निकिल सिल्वर वायर के बाल पैन टिप्स' के लिए सिओन को अधिसूचित किया जाता है।
- केवल टंगस्टन कार्बाइड बाल के समान वितरण का प्रयोग करते हुए सिओन ग-864, ग-1802, ग-1888 और ग-1937 को सुसंगत बनाया गया है और छीजन को 2% से कम करके 1% किया गया है।
- इन सभी सिओन में निविष्टि मद सं. 3 काटने के औजार, ड्रिल तेल और रसायन अनुमत किया गया है।
- सिओन ग-1768 को हटाया जाता है।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

## PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th February, 2012

No. 97 (RE-2010)/2009-2014

**Subject : Fixation of a new SION (C-2048) and addition/ deletion/ amendment in 5 SIONs of Engineering Product Group (Product Code 'C') in the Handbook of Procedures V. 2 (2009-2014).**

**F. No. 01/85/162/242/AM 11/DESVI.**—In exercise of powers conferred under Para 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following additions/deletions/in the Standard Input Output Norms as contained in the Handbook of Procedure V. 2 (2009-2014).

2. A new entry at Serial number C-2048 shall be made after the existing entry at Serial number C-2047. The new entry will be as under :—

S. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.
C-2048	Ball Pen Tips of Nickel Silver Wire of 1.60mm diameter.	1.0 Million Number (Weight not less than 61.9 Kg)	1. Nickel Silver Wire of Dia 1.60mm of relevant grade. 2. Tungsten Carbide. 3. Cutting Tools, Drill Oil & Chemical.	1.90 Kg/Kg content in the export product.  1.01 Million Nos. Upto 2% FOB value of exports.

3. In SION C-864, C-1802, C-1888 and C-1937 the item No. 2 is uniformly mentioned as "Tungsten Carbide Balls" and wastage is reduced to 1% instead of 2% fixed earlier. Consumables are being allowed as item No. 3 against all the norms. Accordingly, the revised Norms will be as under :

S. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.
C-864	Ball Pen Tips of Brass	1.0 Million Number (Weight not less than 182Kg)	1. Brass Scrap 2. Tungsten Carbide Balls 3. Cutting Tools, Drill Oil & Chemical.	1.075Kg/Kg content in the export Product. 1.01 Million Number Upto 2% FOB value of exports.

S. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.
C-1802	Ball Tips of Stainless Steel Wire of 2.3mm diameter.	1.0 Million Number	1. Stainless Steel Wire of dia. 2.3mm of relevant grade. 2. Tungsten Carbide Balls. 3. Cutting Tools, Drill Oil & Chemical.	2.30Kg/Kg content in the export Product. 1.01 Million Number. Upto 2% FOB value of exports.

S. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.
C-1888	Ball Pen Tips of Nickel Silver Wire of 2.3mm diameter.	1.0 Million Number (Weight not less than 176.4Kg)	1. Nickel Silver Wire of dia 2.3 mm of relevant grade. 2. Tungsten Carbide Balls. 3. Cutting Tools, Drill Oil & Chemical.	1.90Kg/Kg content in the export product. 1.01 Million Number. Upto 2% FOB value of exports.

S. No	Export Item	Oty.	Import Item	Qty.
C-1937	Ball Pen Tips of Brass Wire.	1.0 Million Number (Weight not less than 190Kg)	1. Round Brass Wire. 2. Tungsten Carbide Balls. 3. Cutting Tools, Drill Oil and Chemical.	1.80Kg/Kg content in the export product. 1.01 Million Number. Upto 2% FOB value of exports.

4. SION at Serial No. C-1768 is deleted as it is a repeat of C-864.

**5. Effect of the Public Notice :**

- (i) SION for a new export product 'Ball Pen Tips of Nickel Silver Wire of 1.60mm diameter' is notified.
- (ii) SION C-864, C-1802, C-1888 and C-1937 are made harmonious by using uniform discription of Tungsten Carbide Balls only and wastage is reduced from 2% to 1%.
- (iii) Input item number 3 'Cutting Tools, Drill Oil and Chemical' is allowed in all these SIONs.
- (iv) SION C-1768 stands deleted.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade